CAPFIN INDIA LIMITED

CIN: L74999DL1992PLC048032

Regd. Office: 1C/13, Basement, Rajnigandha Building, New Rohtak Road, New Delhi — 110005 Tel No: 011-28762142; E-mail id: capfinindialtd@yahoo.co.in; Website: www.capfinindia.com

Date: 17.07.2024

To,

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Kala Ghoda, Fort, Mumbai-400 001

<u>Sub:</u> Submission of Recommendation of Committee of Independent Directors in relation to an open offer to the Public Shareholders of Capfin India Limited (the "Target Company") ("Open Offer"/ "Offer").

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 26(7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, please find enclosed herewith copy of recommendation of Committee of Independent Directors for the proposed Open Offer.

The Recommendation of the Committee of Independent Directors has been published on July 17, 2024 in the following newspaper:

Sr. No.	Newspaper	Edition	
1.	Business Standard (English Newspaper)	having national daily wide circulation in India	
2.	Business Standard (Hindi Newspaper)	having national daily wide circulation in India	
3.	Pratahkal	Regional Newspaper-Mumbai i.e., where stock exchange is situated	

The published Copy of the same is also enclosed herewith as attachment for your reference.

This is for your kind reference and records.

For & on behalf of Capfin India Limited

Rachita Mantry Kabra
Whole time Director & CFO

DIN: 03414391

Encl: As above

सब पर भारी निफ्टी माइक्रोकैप 250 की खुमारी

निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स ने निफ्टी 50, निफ्टी मिडकैप 150, निफ्टी रमॉलकैप 100 और निफ्टी रमॉलकैप 250 जैसे सूचकांकों को पीछे छोड़ दिया

नई दिल्ली, 16 जुलाई

• फ्टी के माइक्रोकैप शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। यही वजह है कि एनएसई पर 5,000 करोड़ रुपये से कम बाजार पूंजीकरण वाली सूचीबद्ध कंपनियों के प्रदर्शन पर केंद्रित निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक करीब 29 प्रतिशत चढ गया है।

आंकडों से पता चला है कि निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स ने निफ्टी 50, निफ्टी मिडकैप 150, निफ्टी स्मॉलकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 250 जैसे सूचकांकों को पीछे छोड़ दिया। इस सूचकांक ने 16 जुलाई को दिन के कारोबार में 24,179.45 का ऊंचा स्तर छुआ और 24,278.25 के अपने 52 सप्ताह के ऊंचे स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज में रिटेल रिसर्च के उप-प्रमुख देवार्ष वकील के अनुसार माइक्रोकैप शेयरों में तेजी कई कंपनियों की आय में वृद्धि की वजह से आई है। उनका मानना है कि निवेशकों ने नए विचारों वाली कंपनियों के शेयरों को खरीदा और सेक्टरों में भी बदलाव हुआ। वकील ने कहा, 'इस कारण से



दिलचस्पी बढी

 निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक 29 प्रतिशत चढा है

 इस सूचकांक ने 16 जुलाई को दिन के कारोबार में 24,179.45 का ऊंचा स्तर छआ और 24,278.25 के अपने 52 सप्ताह के ऊंचे स्तरों के आसपास कारोबार कर रहा है

कई माइक्रोकैप शेयरों में उछाल ने मोटर इंडस्ट्रीज, शिपिंग कॉरपोरेशन बड़े शेयरों की तुलना में इनका ऑफ इंडिया, किर्लोस्कर ऑयल मुल्यांकन महंगा बना दिया है। इंजन, एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग हालांकि कोई भी पूरी सभी माइक्रो-और नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया कैप शेयरों को एक ही चश्मे से नहीं कुछ ऐसे माइक्रोकैप शेयर हैं, जिन्होंने कैलेंडर वर्ष 2024 में देख सकता। लेकिन निवेशकों को अब सावधान रहने की जरूरत है 160 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी के कि वे क्या खरीद रहे हैं। तेजी की साथ निवेशकों का पैसा दोगुना कर रफ्तार को जारी रखने के लिए दिया है। माइक्रोकैप के ऊंचे मूल्यांकन को आंकडों के अनुसार दुसरी तरफ, अब आय वृद्धि के सहारे की जरूरत है। तेल एवं गैस, कागज, सीमेंट

जयप्रकाश एसोसिएट्स, इंडिया पेस्टीसाइड्स, एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज, स्पंदन स्फूर्ति फाइनैं शियल, वीआरएल लॉजिस्टिक्स और सांघी इंडस्ट्रीज उन माइक्रोकैप शेयरों में शामिल हैं जिनमें 65 प्रतिशत तक की गिरावट आई। इ क्विनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक एवं शोध प्रमख जी चोकालिंगम भी इस सेगमेंट पर सतर्क बने हए हैं हालांकि उनका मानना है कि कुछ शेयरों में तेजी बनी रह सकती है।

चोकालिंगम का कहना है,

'तरलता और संपूर्ण बाजार पुंजीकरण के बीच असमानता एक बड़ी चिंता बनी हुई है। संपूर्ण बाजार पुंजीकरण 5.41 लाख करोड डॉलर के पार पहुंच गया है। बाजार पंजीकरण लगातार बढने से खासकर छोटे शेयरों के लिए संभावित जोखिम भी बढते हैं क्योंकि वे थोड़े महंगे हैं।' प्रभुदास लीलाधर के विश्लेषकों के अनुसार मुल्यांकन के हिसाब से निफ्टी इस समय 18.5 गुना के एक वर्षीय ईपीएस पर कारोबार कर रहा है जो 19.2 गुना के 15 वर्षीय औसत की तुलना में 3.6 प्रतिशत कम है।

लगातार तीसरे दिन तेजी, नए शिखर पर सेंसेक्स व निफ्टी

शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 52 अंक चढ़कर अपने अबतक के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी नए शिखर 24,600 अंक के ऊपर पहुंच गया। एफएमसीजी कंपनियों, दुरसंचार और चुनिंदा आईटी शेयरों में लिवाली तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के पुंजी प्रवाह से बाजार में तेजी बनी रही। सेंसेक्स 51.69 अंक यानी 0.06 फीसदी चढ़कर अपने अबतक के उच्चतम स्तर 80,716.55 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 233.44 अंक यानी 0.28 फीसदी की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 80,898.30

उधर, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 26.30 अंक यानी 0.11 फीसदी की तेजी के साथ नए शिखर 24,613 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 74.55 अंक यानी 0.30 फीसदी चढ़कर रिकॉर्ड 24,661.25 अंक तक गया था।

शेयर बाजार में शुरुआत अच्छी रही और दोनों मानक सूचकांक कारोबार के दौरान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गये थे। हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक बैंक में नुकसान से लाभ सीमित हुआ और दोनों सूचकांक दिन के उच्चस्तर से नीचे आए।

विश्लेषकों के अनुसार, सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार से रिकॉर्ड तेजी पर हैं। इसका प्रमख कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लिवाली है। एफआईआई केंद्रीय बजट पेश होने से पहले भारतीय शेयरों में लिवाल बने हुए हैं। शेयरों के उच्च मूल्यांकन के बावजूद प्रमुख कंपनियों के तिमाही परिणाम उत्साहजनक रहने से भी बाजार को समर्थन मिला है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावेल के अनुसार केंद्रीय बैंक इस बात को लेकर ज्यादा आश्वस्त है कि मद्रास्फीति 2 फीसदी लक्ष्य की ओर वापस आ रही है। कीमत वृद्धि की गति उस स्तर पर पहुंचने पर नीतिगत दर में कटौती की जाएगी। सेंसेक्स के शेयरों में हिंदस्तान यनिलीवर, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक,आईटीसी और एशियन पेंट्स प्रमुख रूप से लाभ में रहे।

10 लाख रुपये के निवेश के लिए नई श्रेणी का प्रस्ताव

समी मोडक मुंबई, 16 जुलाई

भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ऐसे निवेशकों के लिए नया निवेश माध्यम शरू करने का प्रस्ताव रखा है जो बाजार में जोखिम वाले दांव लगाने के इच्छुक हैं, लेकिन जिनकी पहुंच पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) या वैकल्पिक निवेश फंड तक नहीं हैं। नियामक ने इस नई श्रेणी के लिए 10 लाख रुपये के न्युनतम आकार का प्रस्ताव किया है। पीएमएस के लिए अभी 50 लाख रुपये और एआईएफ के लिए 1 करोड़ रुपये की सीमा है। इस बीच म्युचुअल फंडों के लिए न्यूनतम निवेश आकार 100 रुपये हो सकता है।

उद्देश्य निवेशकों को ज्यादा जोखिम लेने की क्षमता और ऊंचे आकार की विशेषता वाली नियमित निवेश योजना मुहैया कराना है। इसका गैर-पंजीकृत अनिधकृत निवेश योजनाओं के प्रसार पर रोक लगाना है।' इसमें कहा गया है, 'हाल के वर्षों में पोर्टफोलियो निर्माण में लचीलेपन के लिहाज से फंडों और पीएमएस के बीच नए परिसंपत्ति वर्ग का अवसर पैदा हुआ है।'सेबी का मानना है कि ऐसी श्रेणी न होने से अवैध इकाइयों को ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों को ललचाने

सेबी ने एक चर्चा पत्र में कहा है.

'प्रस्तावित नए परिसंपत्ति वर्ग का

बदलाव की तैयारी

 बाजार नियामक अनिधकृत निवेश योजनाओं में निवेश पर अंकुश लगाना चाहता है

 सेबी का मानना है कि ऐसी योजना न होने से अवैध इकाइयों को ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेशकों को फंसाने का मौका मिला

का मौका मिला है।

नियामक ने कहा है कि प्रस्तावित परिसंपत्ति वर्ग का ढांचा म्युचुअल फंडों जैसा ही होगा लेकिन उन्हें जोखिम वाली निवेश रणनीतियां लाने की अनुमित होगी। उदाहरण के लिए, म्युचुअल फंडों को हेजिंग के मकसद से सिर्फ डेरिवेटिव बाजार में सौदे करने की अनुमति है। लेकिन नए परिसंपत्ति वर्ग को डेरिवेटिव मार्केट में नेकेड पोजीशन रखने की अनुमति होगी। इसी तरह, डेट सिक्योरिटीज या रीटस और इनविट्स में निवेश की विभिन्न सीमाएं फंडों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा नरम होंगी।

चर्चा पत्र में सेबी ने इस नए श्रेणी में स्पष्ट अंतर करने तथा इसमें शामिल जोखिमों का पहले ही खुलासा करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि निवेशक इन्हें लेकर म्युचुअल फंडों का भ्रम न पालें।.सेबी ने कहा है, 'नए परिसंपत्ति वर्ग के लिए एक अलग नाम का प्रस्ताव है।

म्युचुअल फंड लाइसेंस की कतार में छह फर्में

अभिषेक कुमार मुंबई, 16 जुलाई

क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग ऐंड इन्वेस्टमेंट फर्म अल्फाग्रेप सिक्योरिटीज ने म्युचुअल फंड लाइसेंस के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जून में आवेदन जमा कराया है। सेबी की तरफ से मिली अद्यतन जानकारी के मुताबिक, जून के आखिर में छह कंपनियां म्युचुअल फंड लाइसेंस पाने की दौड़ में थीं।

अल्फाग्रेप के अलावा कोस्मिया फाइनैंशियल होल्डिंग्स ने भी कोस्मिया इन्वेस्टमेंट के नाम से दोबारा आवेदन जमा कराया है।

जियो फाइनैंशियल सर्विसेज और ब्लैकरॉक फाइनैंशियल के संयुक्त उद्यम ने 19 अक्टूबर, 2023 को आवेदन जमा कराया था और वह चार कंपनियों में से मंजुरी की प्रतीक्षा कर रही है।

सेबी दो हिस्सों में एमएफ

कोकुयो कैमलिन के मानद अध्यक्ष सुभाष दांडेकर का सोमवार को निधन हो गया। वह

85 वर्ष के थे। दांडेकर को देश

के कलाकारों और छात्रों के

जीवन में ऐसे वक्त में रंग लाने के

लिए जाना जाता है जब देश रंगों

का आयात किया करता था।

उन्होंने अपने पिता दिगंबर

दांडेकर से कैमलिन का कार्यभार

संभाला था जिसकी शुरुआत

1931 में स्याही बनाने वाली

कंपनी के तौर हुई थी और बाद में

इसने दफ्तरों से जुड़े स्टेशनरी का

सामान बेचना शुरू कर दिया था।

दांडेकर के कार्यभार संभालने के

और

लिए रंगों की पेशकश की।

शार्लीन डिसूजा मुंबई, 16 जुलाई नई आवेदक है अल्फाग्रेप सिक्योरिटीज, जो सैद्धांतिक मंजूरी के लिए जियो व दो अन्य के साथ शामिल हो गई

आदि में चुनिंदा माइक्रोकैप में अभी

एसीई इक्विटी के आंकड़ों से पता

चलता है कि आईएफसीआई

लिमिटेड, किर्लोस्कर ब्रदर्स,

आजाद इंजीनियरिंग, पूर्वांकरा,

गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन, शारदा

भी अवसर हैं।'

लाइसेंस देता है। पहला, सैद्धांतिक मंजरी और फिर अंतिम पंजीकरण। जियो फाइनैंशियल के अलावा नई आवेदक कैपिटलमाइंड फाइनैं शियल सर्विसेज भी लाइसेंस पाने की दौड़ में है। ऐंजल वन और यूनिफि कैपिटल (जिसे फरवरी 2023 व नवंबर 2023 में सैद्धांतिक मंजूरी मिली) अंतिम मंजरी की प्रतीक्षा कर रही है।

कंपनियां सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अपनी-अपनी एएमसी का गठन शरू करती हैं। ऐंजल वन ने एएमसी

नहीं रहे भारतीयों को रंगों से रूबरू कराने वाले सुभाष दांडेकर

मानकों पर परखे जाएंगे शेयर बाजार व एमआईआई

मुंबई, 16 जुलाई

शेयर बाजार की व्यवस्था के लिए रीढ़ माने जाने वाले शेयर बाजारों और अन्य मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्युशन (एमआईआई) की आठ व्यापक मानदंडों पर स्वतंत्र समीक्षक जल्द परख करेंगे। इस समीक्षा के आधार पर उन्हें रेटिंग दी जा सकती है। इससे बाजार नियामक सेबी को उनके प्रदर्शन का आकलन करने और जरूरी हुआ तो उनके गवर्नेंस की व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सलाह देने में मदद मिलेगी।

शेयर बाजारों के अलावा अन्य एमआईआई हैं डिपॉजिटरीज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन। उनके मुल्यांकन में शामिल मानदंडों मसलन पहली ही सीढी पर नियामक के रुप में उनकी खुद की सक्रियता, अनुपालन लागत नीचे लाने की कोशिशें, शुल्क की तर्कसंगतता और सेबी के साथ साझा की गई सूचनाओं का विश्लेषण उनके मुख्य परिचालन के साथ होगा। तकनीक में एमआईआई की सुदृढ़ता मसलन निगरानी की व्यवस्था और आंतरिक जोखिम प्रबंधन के ढांचे के साथ उनके प्रमुख कार्यों का रेटिंग में सबसे ज्यादा 40 फीसदी भार होगा।

अपने प्रतिभागियों के लिए प्रथम स्तर के स्वतंत्र एक है जो नियामक से सैद्धांतिक 📑 के सीईओ के लिए हेमेन भाटिया को 🗄 नियामक के तौर पर एमआईआई का काम और 🛮 उठाएगा। बाजार नियामक ने 27 जून की बोर्ड चुना है। वह पहले निप्पॉन इंडिया 🗓 सेबी के साथ अलर्ट या सूचनाएं साझा किए जाने 🛮 बैठक में एमआईआई के बाहरी एजेंसी से मूल्यांकन के मामले को मल्यांकन में 15 फीसदी भार के लिए व्यापक नियमों को मंजरी दे दी थी।

1964 में रंगों के कारोबार की

शुरुआत की तब देश में रंग नहीं बनाए जाते थे बल्कि इन रंगों का आयात भारत में किया

अपने भाई का जिक्र करते

हुए दांडेकर ने बताया कि उन

दिनों कलाकार कैमलिन के

रंगों का इस्तेमाल करने को

लेकर सहज नहीं थे क्योंकि

उन्हें इसकी गुणवत्ता पर संदेह

था। लेकिन उनके भाई ने

कलाकारों को आश्वस्त किया

कि वे कैमलिन के रंगों का

इस्तेमाल पेंटिंग में करें और

कंपनी उनकी पेंटिंग की गारंटी



मिलेगा। इसके बाद निवेशक सुरक्षा से जुड़े कदमों पर 10 फीसदी, शुल्क की तर्कसंगतता और अनुपालन लागत घटाने की व्यवस्था को 5 फीसदी भार दिया जाएगा। बोर्ड के एजेंडे वाले दस्तावेज में ये बातें कही गई है और बिजनेस स्टैंडर्ड ने उसको देखा है।

सेबी ने इन दस्तावेज में कहा है कि इससे सेबी एमआईआई के प्रदर्शन की तलना करने में सक्षम होगा जो उनकी गतिविधियों की प्रकृति और समय के साथ उनकी निगरानी के रुझान पर आधारित होगा। यह मूल्यांकन बाहर की एजेंसी करेगी जिसकी नियुक्ति एमआईआई करेंगी। हालांकि सेबी एजेंसी की स्वतंत्रता सनिश्चित करने के लिए कदम

लिए सलाह देने में मदद मिलेगी नियामक ने एमआईआई के लिए इंडस्टी स्टैंडर्ड फोरम (आईएसएफ) के साथ संपर्क के जरिये मल्यांकन की व्यवस्था का फैसला लिया है। ऐसा बाहरी मुल्यांकन हर तीन साल पर होगा और पहला असेसमेंट इस ढांचे के लागू होने के 12 महीने के भीतर होगा। हर उप-मानदंडों के लिए अहम प्रदर्शन के संकेतों के नमूने की पहचान सेबी ने आईएसएफ के साथ संपर्क के

गए हैं जो उनकी अहमियत पर आधारित हैं। सेबी ने कहा, एमआईआई की सांविधिक कमेटी के बाह्य मूल्यांकन के मानकों पर अभी विस्तार से विचार-विमर्श हो रहा है। नियामक ने कहा है कि इसके फीडबैक के आधार पर मानकों को समय-समय पर संशोधित किया जा

जरिये की है। हर उप-मानदंडों को भारांक दिए

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CAPFIN INDIA LIMITED ("TARGET COMPANY") Regd office: 1C/13, Basement, New Rohtak Road Delhi North West Delhi - 110005 Website: www.capfinindia.com

Open offer for the acquisition of 15.75.585 (Fifteen Lakh Seventy-Five Thousand Five Hundred Eighty-Five Only) Fully Paid-Up Equity Shares of the face value of Rs. 10/- each, representing 55.00% of the total Equity and voting Share Capita of the Target Company by Mr. Abhishek Narbaria and Mr. Umesh Kumar Sahay (herein after collectively referred as "Acquirers") at a price of Rs. 14.22/- (Rupee: Fourteen and Twenty Two Paisa Only) per fully paid-up Equity Share (the "Offer Price") payable in Cash pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amende from time to time ("SEBI (SAST) Regulations").

This Corrigendum (the "Corrigendum") to the Letter of Offer ("LOF") dated July 11, 2024 sent to Securities and Exchange Board of India is being issued by Fast Track Finse Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of Acquirers.

This Corrigendum is to be read in continuation of, and in conjunction with the LOF Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meanir assigned to such terms in the LOF (as the case may be), unless otherwise specified. The shareholders of Capfin India Limited are requested to note the development

mendments with respect to and in connection with Open Offer are as under: As previously disclosed in the Letter of Offer, the commencement date for our tender offer was initially set for July 19, 2024, which is 11th working days from the date of receiving the RBI Observation Letter. However, due to unforeseen circumstances, the tendering period will now commence on July 22, 2024, which is 12th working days from the date of receiving the RBI Observation Letter. Revised Schedule of Activities: -

Schedule of activity as per LOF has been amended and revised schedule of activitie pertaining to the Offer is set out below.

Activity	Schedule	Revised Schedule		
	Day and Date	(Day & Date)		
Last date for Upward revision in Offer Price/	September 14,	July 19, 2024,		
Offer Size	2023 Thursday	Friday		
Date of Publication of Offer opening Public	September 14,	July 19, 2024,		
Announcement in the newspaper in which DPS has been published	2023 Thursday	Friday		
Date of commencement of Tendering Period	September 15,	July 22, 2024,		
("Offer Opening Date")	2023, Friday	Monday		
Date of closure of Tendering Period ("Offer	October 03,	August 02, 2024,		
Closing date")	2023 Tuesday	Friday		
Last date for post-offer advertisement	October 10,	August 09, 2024,		
ar.	2023 Tuesday	Friday		
Last date of communicating the rejection/	October 17,	August 19, 2024,		
acceptance and completion of payment of	2023	Monday		
consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company	Tuesday			
s per Letter of offer in page no. 18 and point no. 6.1.8, the undated calculation of				

As per Letter of offer in page no. 18 and point no. 6.1.8, the updated calculation of period of delay and interest is provided below:

Last date of completion of payment of consideration as per original schedule of activities	December 18, 2023
Last date of completion of payment of consideration as per revised schedule of activities	August 19, 2024
Delayed Period (No. of Days)	246 Days
Offer Price	Rs. 13.32/-
Interest @ 10% p.a for the delayed period	Rs.0.9/-
Offer Price plus applicable Interest	Rs. 14.22/-

Except as detailed in this Corrigendum, all other terms of the PA, DPS, DLOF & LOF (as the case may be) remain unchanged

The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum to LOF (as the case may be) also for the fulfillment of the obligations of the Acquirers laid down in the Regulations, as amended from to time to time

A copy of this Corrigendum to LOF will be available on SEBI's website- www.sebi.gov.in BSE's website www.bseindia.com; and on Lead Manager website - www.ftfinsec.com;

SSUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRE Fastrack Finsec

FAST TRACK FINSEC PRIVATE LIMITED Office No. V-116. First Floor, New Delhi House. 27. Barakhamba Road, New Delhi - 110001 Telephone: +91-11-43029809

Email: mb@ftfinsec.com Website: www.ftfinsec.com Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma SEBI Reg. No: INM000012500 CIN: U65191DL2010PTC200381

कड़े नियम जल्द लागू करें एमएफ

दांडेकर के भाई और कंपनी के चेयरमैन दिलीप कोक्यों कैमलिन का बाजार पुंजीकरण 1,555.31

सुभाष दांडेकर,

कैमलिन के मानद अध्यक्ष

के

पृष्ठ-१ का शेष

यह व्यवस्था म्युचुअल फंड के संगठन एम्फी द्वारा कामकाज के लिए तैयार की गई मानक प्रक्रिया पर आधारित होगी। अभी यह नहीं पता कि एम्फी ने सेबी को यह प्रक्रिया भेजी है या नहीं। मई की शुरुआत में एम्फी ने कहा था कि वह एक महीने में इसे तैयार कर लेगा। इस बारे में जानकारी के लिए एम्फी को ईमेल भेजा गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया।

कलाकारों

दांडेकर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'जब उन्होंने करोड रुपये था।

अभी सभी फंड कंपनियों के पास निगरानी की अपनी-अपनी व्यवस्था है। सेबी के निर्देश के मुताबिक बाजार में कारोबार के घंटों के दौरान फंड मैनेजरों और डीलरों की पूरी बातचीत रिकॉर्ड की जाती है। नई व्यवस्था लागू

से जुड़ सकें और सुभाष का यही सपना भी था। उन्होंने

लेखन सामग्री का भी विस्तार किया।' मंगलवार को

होने के बाद नियामक इसमें ढील दे सकता है। इस महीने की शुरुआत में सेबी ने सुर्कलर जारी कर कहा था कि स्टॉक ब्रोकरों के लिए धोखाधड़ी या बाजार के दुरुपयोग का पता लगाने और उसे रोकने के लिए संस्थागत स्तर पर व्यवस्था तैयार करना अनिवार्य है।

CAPFIN INDIA LIMITED

Registered Office: 1C/13, Basement, New Rohtak Road, Delhi North West Delhi – 110005
Telephone.: - 011-22055161 | E-mail: capfinindialtd@yahoo.co.in | Website: www.capfinindia.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Capfin India Limited ("Target Company" or "TC") on the Open Offer ("Offer") made by Mr. Abhishek Narbaria (PAN No. AFXPN5866M) and Mr. Umesh Kumar Sahay (PAN No. BOIPS8195D) (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") to the Public Shareholders of Target Company ("Shareholders") under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and

Ш	subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations").					
	1.	Date	July 16, 2024			
II	2.	Name of the Target Company (TC)	Capfin India Limited			
I		Details of the Offer pertaining to the TC	Offer is being made by the Acquirers pursuant to Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations for the acquisition of upto 15,75,585 (Fifteen Lakh Seventy-			
			Five Thousand Five Hundred Eighty-Five) fully paid-up equity shares of face value Rs. 10/- each, representing 55.00% of the total equity and voting share capital of the Target			
I			Company at a price of 14.22/- (Rupees Fourteen and Twenty-Two Paise Only) per Equity Share ("Offer Price"), payable in cash.			
II		Name of the Acquirer(s) and the				
II		Person Acting in Concert (PAC)	Mr. Umesh Kumar Sahay			
Ц		with the Acquirers				
Name of the Manager to the Offer		Name of the Manager to the Offer	Fast Track Finsec Private Limited			
			SEBI Registration No.: INM000012500			
			Office No. V-116, First Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001;			
			Tel+91-011-4302980; Website: www.ftfinsec.com; Email: mb@ftfinsec.com			
			Contact person: Mr. Vikas Kumar Verma			
	6.	Members of the Committee of	Mr. Sanjay Kukreja, Chairman			
	Independent Directors (IDC) 2. Mr. I		Mr. Mangina Srinivas Rao, Member			
			Ms. Gayathri Lyer, Member			
П	7.	IDC Member's relationship with the	IDC members are Independent Directors on the Board of the TC. None of the IDC members			

TC (Director, Equity Shares owned, hold any equity shares or has entered into any other contract/relationship with the TC except any other contact/ relationship), if any as directors on the board of the TC and as chairperson/member of the Board Committee

8. Trading in the Equity Shares/ None of the IDC members has traded in Equity Shares/ other securities of the TC during the लेती है कि ये रंग लंबे समय other Securities of the TC by IDC period of 12 months prior to the date of Public Announcement dated July 25, 2023 or the तक बने रहेंगे। उन्होंने कहा, 9. IDC Member's relationship with None of the IDC Members has any contract/relationship with the Acquirers. 'हमारे उत्पाद की खुबी यह है कि बाद उन्होंने कारोबार का विस्तार करने के साथ ही यह सभी उम्र वर्ग के लिए है ताकि ग्राहक हमारे ब्रांड

the Acquirer (Director, Equity Shares owned, any other contact relationship), if any 10. Trading in the Equity shares/other

securities of the acquirer by IDC Members Offer, as to whether the offer is fair

Not applicable 11. Recommendation on the Open The IDC is of the view that the Offer is fair and reasonable. However, the shareholders

period from Public Announcement till the date of this recommendation.

12. Summary of reasons for

IDC members have reviewed the Public Announcement("PA"), Detailed Public Statement ("DPS"), Draft Letter of Offer ("DLOF") and the Letter of Offer ("LOF"), issued by Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer. Based on review of PA, DPS, DLOF and LOF, IDC is of the view that the Offer Price of Rs. 14.22/- (Rupees Fourteen and Twenty-Two Paise Only) per Equity Share offered by the acquirer is in line with SEBI (SAST) Regulations and appears to be fair and reasonable.

13. Details of Independent Advisors, if any 14. Any other matter to be highlighted None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the nformation required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations.

Date: July 16, 2024 Place: New Delhi

Capfin India Limited Mr. Sanjay Kukreja Chairman of IDC

APPOINTMENTS



राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसे 28 मार्च, 2014 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत विभिन्न क्रेडिट गारंटी निधियों के लिए एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए शामिल किया गया था। एनसीजीटीसी निम्नलिखित पदों के लिए उपयुक्त पेशेवरों (दीर्घकालिक अनुबंध के आधार पर) की भर्ती करना चाहता है:

3. प्रबंधक (संचालन)

2. सहायक महाप्रबंधक

4. प्रबंधक – (सुचना सुरक्षा) 5. सहायक प्रबंधक (संचालन) 6. सहायक प्रबंधक (आईटी)

अधिक विवरण हेतु कृपया वेबसाइट <u>www.ncgtc.in</u> का अवलोकन करें। परिशिष्ट/शुद्धि पत्र यदि कोई होगा, केवल एनसीजीटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित होगा। अभ्यर्थी अंतिम आवेदन जमा करने से पूर्व इसका अवलोकन कर लें। आवेदन जमा करने की **अंतिम तिथि** कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लघू सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

e-mail I.D. - eemidmed-cemr-jhr@nic.in, PH. 06562-240100 (का०) पत्रांक:—389 / मेदिनीनगर, दिनांक— 15 / 07 / 2024

ई0- निविदा रद्द संबंधित सूचना

इस कार्यालय के द्वारा आमंत्रित ई0- निविदा सूचना सं0:-WRD/MID/ MEDININAGAR/F₂-12/2024-25 जिला पलाम् के तरहसी प्रखण्ड अन्तर्गत छतरपुर सोलर उदवह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, जिसका PR. NO:-328180 (Minor Irrigation) (2024-25)#D उक्त ई0— निविदा को अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। कार्यपालक अभियंता. लघु सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर। PR 329810 District(24-25)D



Loan A/c: 312300003785

LIC HOUSING FINANCE LTD.

BACK OFFICE: LAXMI INSURANCE BUILDING, ASAF ALI ROAD, **NEW DELHI - 110002** Appendix IV [Rule 8(1)]

POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

Sector 25, Area measuring 51.8 sq. mtrs. (25.90 sq. mtrs. each), Rohin

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the LIC HOUSING FINANCE LTD. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Second) Ordinance, 2002 (Ord. 3 of 2002) and in exercise of power conferred under section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice as briefed under calling upon the Loanee, as briefed under to repay the amount mentioned in the notice being as briefed under + interest and other charges accrued thereupon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Loanee having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Loanee and the public in general that the undersigned has taken SYMBOLIC POSSESSION of the property described herein below, in exercise of power conferred on him/her under section 13(4) of the said Ordinance read with Rule 9 of the said Rules, on the dates mentioned against each account.

The Loanee in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of LIC HOUSING FINANCE LTD, of an amount as briefed under + interest & other charges accrued thereupon within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Sr. No.	Name of the Applicant(s) & Co-Applicant(s)	Description of the Immovable Property	Date of Demand Notice	Date of Possession Notice	Amount as per Demand Notice	Type of Possession
1.	MR. AMIT KUMAR Co-Appliant(s):-	R. AMIT KUMAR of the property 52,27,314.29 plus interest and other consisting of "Entire charges thereon. S. URMILA DEVI an A/c: 312300003464 Sector 22. R				Symbolic Possession
	Loan A/c: 312300003464 &				et - 4, Sector	22, Rohini
	Plot No. 40; On the South by: Plot					
2.	Primary Applicant(s):- MR. ALOK GUPTA Co-Appliant(s):- MS. SANDHYA GUPTA	All that part and parcel of the property consisting of bearing	12,73,231.5	0 plus inte		Symbolic Possession

3. Primary Applicant(s):-All that part and parcel 12.01.2024 15.07.2024 Symbolic MR. ATUL BHATT of the property 39,28,677.14 plus interest and other consisting of "Flat No. charges thereon. Loan A/c: 312300001511 S-2, MIG Type, Second Floor, Front Side (With Roof Rights) having Super Covered Area 50 Sq. Mtrs., Part of built up Property bearing No. NK-P/69, Nyay Khand-1, Indira Puram, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201010'. Bounded:- On the North by: Road 120 Ft. Side; On the South by: Plot No. 68; On the East by: Road 12 Meter Wide; On the West by: Plot No. 36.

Residential Scheme, Rohini, Delhi - 110085" title deed no. 2085 dtd. 20.05.2019. Bounded:- On the North

by: Entry; On the South by: Plot No. 166 & 167; On the East by: S/Lane; On the West by: Plot No. 232.

Amount outstanding amount as stated above plus further interest accrued and other charges from the date of demand notice

CAPFIN INDIA LIMITED

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Capfin India Limited ("Target Company" or "TC") on the Open Offer ("Offer") made by Mr. Abhishek Narbaria (PAN No. AFXPN5866M) and Mr. Umesh Kumar Sahay (PAN No. BOIPS8195D) (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") to the Public Shareholders of Target Company ("Shareholders") under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations").

Details of the Offer pertaining to Offer is being made by the Acquirers pursuant to Regulation 3(1) and Regulation 4 of the TC

SEBI /SAST) Regulations for the acquisition of unto 15.75.505 (Fig. 1).

Fast Track Finsec Private Limited SEBI Registration No.: INM000012500

Mr. Sanjay Kukreja, Chairma

Ms. Gayathri Lyer, Member

Mr. Mangina Srinivas Rao, Member

IDC Member's relationship with None of the IDC Members has any contract/relationship with the Acquirers

Offer, as to whether the offer is fair should independently evaluate the Offer and take informed decision.

Contact person: Mr. Vikas Kumar Verma

IDC Member's relationship with the IDC members are Independent Directors on the Board of the TC. None of the IDC members

TC (Director, Equity Shares owned, hold any equity shares or has entered into any other contract/relationship with the TC excep

any other contact/ relationship), if any as directors on the board of the TC and as chairperson/member of the Board Committees

Trading in the Equity Shares/ None of the IDC members has traded in Equity Shares/ other securities of the TC during the

other Securities of the TC by IDC period of 12 months prior to the date of Public Announcement dated July 25, 2023 or the

11. Recommendation on the Open The IDC is of the view that the Offer is fair and reasonable. However, the shareholders

to the Open Offer on behalf of the Acquirer.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the

period from Public Announcement till the date of this recommendation.

SEBI (SAST) Regulations for the acquisition of upto 15,75,585 (Fifteen Lakh Seventy-Five Thousand Five Hundred Eighty-Five) fully paid-up equity shares of face value Rs.

10/- each, representing 55.00% of the total equity and voting share capital of the Target

Company at a price of 14.22/- (Rupees Fourteen and Twenty-Two Paise Only) per Equity Share ("Offer Price"), payable in cash.

Office No. V-116, First Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001

IDC members have reviewed the Public Announcement("PA"), Detailed Public Statement ("DPS"), Draft Letter of Offer ("DLOF") and the Letter of Offer ("LOF"), issued by Manage

Based on review of PA, DPS, DLOF and LOF, IDC is of the view that the Offer Price of Rs. 14.22/- (Rupees Fourteen and Twenty-Two Paise Only) per Equity Share offered by

the acquirer is in line with SEBI (SAST) Regulations and appears to be fair and reasonable

Tel+91-011-4302980: Website: www.ftfinsec.com; Email: mb@ftfinsec.com

July 16, 2024

2. Name of the Target Company (TC) Capfin India Limited

Name of the Acquirer(s) and the Mr. Abhishek Narbaria Person Acting in Concert (PAC) Mr. Umesh Kumar Sahar

with the Acquirers

Name of the Manager to the Offer

6. Members of the Committee

Independent Directors (IDC)

the Acquirer (Director, Equity

Shares owned, any other contact/

14. Any other matter to be highlighted None

information required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations

10. Trading in the Equity shares/other Not applicable securities of the acquirer by IDC

relationship), if any

12. Summary of reasons for

recommendation

13. Details of Independent

Advisors, if any

Date: July 16, 2024

Place: New Delhi

Members

Registered Office: 1C/13, Basement, New Rohtak Road, Delhi North West Delhi – 110005
Telephone.: - 011-22055161 | E-mail: capfinindialtd@yahoo.co.in | Website: www.capfinindia.com

AUTHORISED OFFICER, LIC HOUSING FINANCE LTD. Date: 16.07.2024 Place: Delhi

BIKANER BRANCH: M.G. ROAD, P. B. NO. 25 BIKANER (Raj.)-334001 Ph. No. 0151-220336

AMENDMENT NOTICE The borrower in particular and the general publi are informed that the e-auction notice of th mortgaged property in the loan account of Sh Ramlal Panwar S/o Shri Bulaki Das Panwar wa published in Business Standard and Puni

kesari on 06/07/2024. The mortgaged property mentioned in the said newspapers and the notices sent to the borrower will be auctioned or 25/07/2024 through the website https://ebkray.in. The remaining facts ar conditions will remain the same. So stay informed Authorised Officer, Bank of India

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of ownership in respect on Residential Plot No-71, Sector-9, Urban Estate aridabad in death case on the basis of

registered WILL Smt. Surinder Kaur W/o Sh. Mohan Singh was the owner of the subject cited property as per record of HUDA and she had died on 20.8.2020 record of HUDA and she had died on 20.8.2020 and before death she had got registered a WILL in favour of her daughter Rajni Chauhan W/o Sh. Balwan Chauhan vide document/registration No. 597 dated 13/2/2009, registered in the office of Sub Registra-VIII, New Delhi and she left behind the following legal heirs i.e. Parvinder Bansal (Son), Inderjet Bansal (Son), Rajni Chauhan (Daughter). Sh. Mohan Singh, husband already expired on 27.4.2010. Smr. Rajni Chauhan W/o Sh. Balwan Chauhan. Owner on the basis of 27.4.2010. Smt. Rajni Chauhan W/o Sh. Balwan Chauhan, owner on the basis of registered will dtd 13.2.2009 had died on 19.5.2021 leaving behind the following legal heirs:-Shlladitya Chauhan (Son). Shefall Chauhan (Daughter), Balwan Chauhan (Husband). (1) Shiladitya Chauhan S/o Sh. Balwan Chauhan (2) Shefall Chauhan D/o Sh. Balwan Chauhan Both H/o H.No. 92, lind Floor, G-Block, Near Sonia PVR. Vikas Puri, Tilak Nagar, S.O., West Delhi, Delhi intend to apply for the transfer of the said property in their favour in death case, as their mother namefravour in death case, as their mother namefravour fis ald the said chauhan was the owner of said Late Smt. Raini Chauhan was the owner of sa plot on the basis of registered will. If any person is having objection against the transfer of salibid Plot/house. he/she can submit objections in writing to the Estate officer, HSVP Faridaba along with supporting documents within 30 days from the date of publication of this notice. Otherwise the Estate officer may transfer the property as per HSVP policy and may not iladitya Chauhan & Shefall Chauhai

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited

16.07.24/ 05.00 PM PM onwards

(Regd. Office PSEB Head Office, The Mall Patiala Corporate Identification Number (CIN): U40109PB2010SGC033813 Website: www.pspcl.in Mobile No. 96461-55525

Short Term E-Tender Eng. No. 7575/P-3/EMP-12723 Dy. Chief Engineer/ Headquarter (Procurement Cell-3) GGSSTP, Roopnagar invites E-

Tender ID No. 2024_POWER_123837_1 for the Procurement of Spares for Seal Assy. Set for Hot air gates of Bowl mills of stage-III of GGSSTP, Ropar. For detailed NIT & Tender Specification please refer to https://eproc.punjab.gov.in from

Note:- Corrigendum and addendum, if any, will be published online a

https://eproc.punjab.gov.in.

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 1) 2nd Floor, SCO 33-34-35, Sector 17-A, Chandigarh Case No.: OA/360/2024

under Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, read with Sub-Rule (2A) of Rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No.: 23083 STATE BANK OF INDIA

RVD SALES PRIVATE LIMITED

1) RVD Sales Private Limited Private Limited Company duly incorporated under the Companies Act, 1956 having its

legistered Office at Opposite Urdu Training Centre, Power House Road, Saproon, Solan 173211 (H.P.) through its Directors.

(2) Shri Sanjay Mittal S/o Shri Jeevan Ram Mittal, R/o A-2, Dev Bhoomi Apartments Power House Road, Saproon, Solan, Himachal Pradesh - 173211.

(3) Smt. Amita Mittal W/o Shri Sanjay Mittal, R/o A-2, Dev Bhoomi Apartments, Pow louse Road, Saproon, Solan, Himachal Pradesh - 173211.

(4) Shri Raj Kumar Mittal S/o Shri Jeewan Ram Mittal, R/o A-2 Dev Bhoomi Apartments Power House Road, Saproon, Solan, Himachai Pradesh - 173211.
(5) Smt. Vasudha Ahluwalia W/o Shri Ashok Kumar Ahluwalia, R/o House No. 337/B-2,

Shiv Colony, Near Hotel Utsav, Pinjore, District Palwal, Haryana - 134102. Also at:- Village Radiyana, Post Office Subathu, District Solan, Himachal Pradesh

WHEREAS, OA/360/2024 was listed before Hon'ble Presiding Officer / Registrar on 01.07.2024

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons / notice on the said Application under Section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of

Rs. 3,13,42,984.08 (application along with copies of documents etc. annexed). n accordance with Sub-Section (4) of Section 19 of the Act, you, the defendants ar

directed as under:-(i) to show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) to disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specifie by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) you are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties

(iv) you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and / or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) you shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets ther assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding securit

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before REGISTRAR on 05.09.2024 at 10:30 A.M. failing which the polication shall be heard and decided in your abs Given under my hand and the seal of this Tribunal on this date 03.07.2024.

Signature of the Officer Authorised to issue summon Debts Recovery Tribunal Chandigarh (DRT 1)

Partapur Branch, Banswara

Whereas, The undersigned being the authorized officer of the State Bank of India under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interes Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dater 18.04.2024 Calling upon the borrower M/S RAJASTHAN H. P. FILING STATION, Add. 16.04.2024 Calling upon the borrower M/S RAJASTHAN H. P. FILING STATION, Addi-Add: Katwara, Chopasag, Partapur, Garhi, Banswara (Raj.) 327024. Proprietor: MR. RAJENDRA PRASAD SHRIMALI S/O SH. NARAYAN LAL SHRIMALI through its Guarantor Mr. Natwar Lai Panchal S/o Sh. Raghunath Panchal to repay the amount mentioned into the notice being Rs. 14,71,288 (Rupees Fourteen lac Seventy-One Thousand Two Hundred Eighty-Eight only) as on 10.04.2024 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub section (4) of the section 13 of the Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this the 11 day of July of the year 2024
The Borrowers/Guarantors/Mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India, Partapur Branch, Banswara for an amount Rs.11,75,531/- (on Ward Eleven lac Seventy-Five Thousand Five Hundred Thirty-one only) and future interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Equitable mortgage of all the part and parcel Residential Property at Plot no. 35, Hospital Road, Partapur, Banswara, Raj. (ADMASURING 900 sq. ft.) in the name of Mr. Rajendra Prasad Shrimali., Bounded by:- East:- House of Ashok chouhan, West:- Hospital Road, North:- House of Abdul latif, South:- Shop of Rakesh Garg Date: 11.07.2024 Place: Partapur, (Authorized Officer) State Bank of India

RBL BANK LTD.

REGISTERED OFFICE: 1st Lane, Shahupuri, Kolhapur-416001

National Office: 9th Floor, Techniplex-I, Off Veer Savarkar Flyover Goregaon (West) Mumbai - 400062. **GOLD AUCTION CUM INVITATION NOTICE**

The below mentioned borrower has been served with demand notices to pay outstanding amount towards the loan facility against gold ornaments ("Facility" availed by them from RBL Bank Limited. Since the borrower has failed to repay due: under the Facility, we are constrained to conduct an auction of the pledged gold ornaments on 24th July, 2024.

In the event any surplus amount is realised from this auction, the same will be refunded to the concerned borrower and if there is a deficit post the auction, the balance amount shall be recovered from the borrower through appropriate legal proceedings. RBL Bank has the authority to remove following account from the auction without prior intimation. Further, RBL Bank reserves the right to change the Auction Date without any prior notice.

	Account Number		Details of Gold Ornament (in gms.)		Auction Date and Time
1.	809007	AMIT BHATI	Total_Gross_Wt	17.44	24.07.2024
	869753		Total_Impurity		02:00 P.M.
			Total_Stone_Wt	0	to
			Total_Net_Wt	16.6	04:00 P.M.

The auction will be conducted in the premises of RBL Bank Branch situated at - The RBL BANK Ltd., P-7, Sector-18, Noida, P-7, Sector-18, Uttar Pradesh 201301 Interested bidders may visit the above-mentioned Branch of RBL Bank on the Auction Date as per time indicated above. To know about detailed terms and conditions of the auction please get in touch with the Branch Manager - Chandan. Shingari

Place: Noida (U.P.) **Authorized Office** Date: 17.07.2024



DEE DEVELOPMENT ENGINEERS LIMITED

CIN: U74140HR1988PLC030225

Regd. Address: Unit 1, Prithla-Tatarpur Road, Village Tatarpur, Dist. Palwal, Haryana- 121102, India Phone No: 01275 248 200, Website: https://www.deepiping.com

STATEMENT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (Rs. in lakhs unless otherwise stated)

Current **Previous** Preceding Corresponding Current Previous Preceding Corresponding Three Three three months **Financial Financial** three months **Financial** Financia three three months months vear months ended in the year vear months ended in the ended **Particulars** ended previous year ended ended ended previous year ended ended March 31, March 31, March 31 March 31, March 31, March 31 March 31 Decembe March 31. December 2024 31, 2023 2023 2024 2023 2024 31, 2023 2023 2024 2023 Revenue from operations 20,121.06 16,748.43 14.137.22 64.446.33 50.269.61 24.320.52 20.961.80 16,460.07 78,875.92 59.549.52 Net profit/(Loss) for the period (before tax, 1.120.63 712.86 1.084.29 2.610.42 2.554.76 1.648.22 1.075.63 1.512.07 3.551.19 2.037.20 execptional and /or extra ordinary item) Net profit/(Loss) for the period before tax (after 1.120.63 712.86 1,084.29 2,610.42 2,554.76 1,648.22 1,075.63 1,512.07 3,551.19 2,037.20 exceptional and/or extra ordinary item) Net profit/(Loss) for the period after tax (after 821.05 596.29 762.40 1,981.83 1.858.54 1,186.87 902.93 1,204.86 2,620.65 1,297.22 exceptional and/or extra ordinary items) Total Comprehensive income for the period (comprising profit & loss account for the period 834.72 608.29 1,877.46 1,792.98 1,177.81 914.49 2,481.26 1,166.13 746.01 1.162.54 after tax and other comprehensive income Paid-up Equity Share capital (Face Value of 5.303.91 5.303.91 1.060.78 5.303.91 1,060.78 5.303.91 5.303.91 1.060.78 5.303.91 1.060.78 Rs.10/-each) Other Equity 44,265.29 46,364.73 39,807.87 41,303.50 Earnings per equity share (par value Rs. 10- each) 1.54 1.12 1.44 3.74 3.50 2.24 1.70 2.27 4.94 2.45 1.55 1.44 3.50 2.23 1.70 2.45 b) Diluted 1.12 3.72 2.27 4.92

*Not Annualised except for the year end.

The financial results are approved by the Board of Directors at their meeting held on July 16, 2024 after being reviewed and recommended by the audit committee. The statutory auditors have carried out the audit of these financial results and have given an unmodified opinion.

The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results for the Fourth Quarter And Year Ended March 31, 2024 filed with Stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial result are available on the Company's website i.e www.deepiping.com and Stock exchange website at BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com).

For and on behalf of DEE Development Engineers Limited

K L Bansal **Chairman & Managing Director**

Place: Palwal, Haryana Date: July 16, 2024

50 years of purpose over influence.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

Capfin India Limited

Mr. Sanjay Kukreja

Chairman of IDC



50 Years of Insight

छत्रपती शाहुंनी राजकीय पांघरूण घातलेय

भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकरांचे टिकास्त्र

प्रशासनाने अतिक्रमणविरोधी कारवाई केल्याने विशाळगड आणि आजूबाजूच्या परिसरात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार छत्रपती शाहू महाराज आणि आ. सतेज पाटील हे त्या ठिकाणी दाखल झाले. त्यांनी तेथील परिस्थितीची पाहणी केली. यावरून भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी छत्रपती शाह् महाराज यांच्यावर तोफ डागली आहे. एका बाजूला आपण छत्रपतींचा वारसा सांगतो आणि दुसऱ्या बाजूला गडकिल्ल्यांवर अतिक्रमण होत असेल तर त्याचे संरक्षण करायला जातो हे दुर्दैव आहे. आता छत्रपती शाहू महाराज राजकीय झालेत. त्यांनी राजकीय पांघरूण घातले आहे. सतेज पाटील यांच्या बरोबरीने ते राजकीय उद्देशाने भुमिका घेताना दिसताहेत हे दुर्दैवी असल्याची टिकाही दरेकर यांनी केली आहे. दरेकर म्हणाले की, शाहू महाराज किंवा काँग्रेसला निवडणुकीत एका विशिष्ट समाजाने मतदान केले आहे. त्या समाजाशी इमानदार राहण्याचा ते प्रयत्न करताहेत हे स्पष्ट दिसतेय. एका बाजूला आपण छत्रपतींचा

मुंबई, दि. १६ (प्रतिनिधी) : जिल्हा वारसा सांगतो आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या गडिकल्ल्यांवर अतिक्रमण होत असेल तर त्याचे आपण संरक्षण करायला जातो हे दुदैंव आहे. त्यामुळे छत्रपती संभाजीराजेंनी घेतलेली भुमिका योग्य आहे. गडकिल्ल्यांवर अतिक्रमण होताच कामा नये. त्याचे समर्थन कृणीच करू शकत नाही. परंतु आता छत्रपती शाहू महाराज राजकीय झालेत. सतेज पाटील यांच्या बरोबरीने ते राजकीय उद्देशाने भुमिका दिसताहेत हे दुर्दैवी आहे. संभाजीराजेंनी जी भुमिका घेतलीय तिच्याशी सरकारही सहमत आहे. ज्यावेळी प्रतापगडावर अतिक्रमण होते त्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी बुलडोजर लावून ते अतिक्रमण निष्काशीत केले. त्यामुळे गडकिल्ले हे सुरक्षित पाहिजेत. तो ऐतिहासिक वारसा पाहिजे ही भुमिका सार्वत्रिक महाराष्ट्राची आहे. तीच भुमिका सरकारची आहे. आता शाहू महाराजांनी राजकीय पांघरूण घातल्याने अशा प्रकारची भुमिका येताना दिसत असल्याचेही दरेकर म्हणाले. तसेच जे बोलतात तेच जातीय तेढ निर्माण

शकते. परंतु प्रत्येकाला आपली राजकीय पोळी भाजायची आहे त्यातून वातावरण गढ़ळ होवो नाहीतर जातीय तेढ निर्माण होवो त्याचे दुर्देवाने विरोधकांना काहीच पडलेले नसल्याचेही दरेकर म्हणाले. जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या विधानावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, जितेंद्र आव्हाड बेताल बडबडण्यात माहीर आहेत. अजित पवार यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचा राग नाही. कारण ते शेवटी राज्याचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस काम करताहेत. त्यामुळे राग असण्याचे काही कारण नाही. जे बेताल बोलणारे आहेत त्यांना राग कुठून दिसला? अजित पवारांनी तर स्पष्टपणे सांगितले शिंदेच्या नेतृत्वाखाली मी निवडणूक लढवणार आहे. राग असलेला माणूस असे बोलतो का?

ठाकरे गटाच्या बैठकीवर बोलताना दरेकर म्हणाले की, सगळ्याच पक्षांच्या बैठका होताहेत. जेव्हा विधानसभेची निवडणूक तोंडावर येते तेव्हा अजित पवार, शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठका झाल्या. भाजपच्या, शिंदेंच्या बैठका सुरू आहेत.

महाराष्ट्र शासन

करतात. सरकारी पातळीवर एकत्रित बसून

त्याचे नियोजन होऊ शकते, दिशा मिळू

संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय

Email :- dirmum.pg@mahapwd.gov.in दुरध्वनी क्र:- ०२२ - २२०१६८५२

ई - निविदा सुचना क्र. ०४ सन २०२४ २०२५

संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई यांचे कार्यालय, २ रा मजला, मझंबान रोड, फोर्ट, मुंबई - ४००००१, दुरध्वनी क्रमांकः- ०२२-२२०१६८५२ महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून योग्य त्या कंत्राटदारांकडून खालील कामाकरीता व-१ नमुन्यातील निविदा मार्गावत आहेत. निविदा स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अथिकार संचालक. उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, फोर्ट, मुंबई यांनी राखून ठेवला आहे अट असलेली निविदा स्विकारली जाणार नाही

अ. क्र.	कामाचे नाव		
٤.	१. मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, सचिव व अधिकारी तसेच मंत्रालय व निवन प्रशासकीय इमारत व मा. मंत्री महोदय यांचे निवासस्थान येथे शोभिवंत झाडांच्या कुंडयांची ने आण करणे व मंत्रालय रोपवाटीकेमध्ये दैनंदिनकामासाठी मजूर यांचा पुरवठा करणे. (११ मिहन्यांकरीता)		
٦.	मध्यवर्ती रोपवाटीका पुणे, येथे (३ शिफ्टमध्ये) आणि पुणे विद्यापीठ पार्क (२ शिफ्ट), खाजगी सुरक्षा रक्षक पुरवणे. (११ महिन्यांकरीता)		
₹.	पुणे, येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय, व्ही. व्ही. आय. पी. आणि निवन सर्कीट हाऊस आवारातील उद्यानाची देखभाल करणे. (१२ महिन्यांकरीता)	<i>ফ.२६,७६,७६८/-</i>	

ई-निविदा उपलब्ध कालावधी : दि. १६/०७/२०२४ सकाळी १०,३० पासन ते दि. २३/०७/२०२४ रोजी १८,००

ई-निविदा उघडणे (शक्य झाल्यास) : दि. २५/०७/२०२४ रोजी १५.३० वाजता

mahatenders.gov.in

जा.क्र./संउवउम्ं/ले.शा./ ई-नि.प्र./२४-२५/११२०

संचालक यांचे कार्यालय,

उपवने व उद्याने, बांधकाम भवन २ रा मजला, २५ मझंबान रोड,

फोर्ट, मुंबई :- ४०० ००१

दरध्वनी क्र :- ०२२-२२०१६८५२

Email-dirmum.pg@mahapwd.com

दिनांक :- १०/७/२४

विकास हायस्कूल शाळेत विद्यार्थांची मूल्य संस्काराची दिंडी मुंबई, दि. १६ (प्रतिनिधी) : विक्रोळी

एकादशी निमित्त शाळेत ''मूल्यांचे संवर्धन करणारी दिंडी" अनुभवली. या उपक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी अभंग भजन यांचे गायन केले. ज्ञानोबा माऊली तुकाराम चंद्रभागेच्या तिरी उभा मंदिरी, भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल ,विठ्र माऊली तू माऊली जगाची या विठ्ठलाच्या अभंगांवरती टाळांच्या गजरात दिंडीचा अनुभव घेतला. भारतीय संस्कृती मधील सण उत्सव आणि त्यामधुन रुजवली जाणारी नैतिक मुल्ये यांची जोपसना करण्याचा प्रयत्न केला गेला. पारंपारिक वारकरी वेषभूषेमधील विद्यार्थी दिंडीमध्ये

येथील विकास हायस्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांनी आषाढी

विठ्ठल-रखुमाई, संत नामदेव, संत तुकाराम यांच्या वेषभूषेमधील विद्यार्थ्यांमुळे जण् अवघे पंढरपूर शाळेमध्ये अवतरले होते. संपूर्ण वातावरण विठ्ठल नामाच्या गजराने भारावून गेले होते. दिंडीमध्ये घातले जाणारे रिंगण, फुगड्या याचा अनुभव विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष घेतला उपक्रमाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे विद्यार्थ्यांचे आदर्श शालेय वर्तन कसे असावे यासंदर्भातील घोषवाक्य तयार करण्यात आलेली होती.

घोषवाक्यांमधुन विद्यार्थ्यांमध्ये या नीटनेटकेपणा, श्रमप्रतिष्ठा, सर्वधर्मसमभाव, राष्ट्रभक्ती, सौजन्यशीलता, विद्यार्थी शालेय वर्तन नियमावली इत्यादी बाबत जागती करण्यात आली

जाहीर सूचना सूचना याद्वारे देण्यात येते की, श्री. मनिष नेबीचंद पुनिमया दे फ्लॅट क्र. २०१, मोजमापित ५६.३२ ची. मीटर सुफ् टीयनए/(टीयनए)/यचएसजी .. टीसी)/४००/१९८५-८६, धारक मालमत्ता व क्षेत्रर ामाणपत्र क्र. १८ विभाजीत शेअर ०८६ ते ०९० डाणे ४०१ १०१ येथील मालमत्तेचे कायदेशीर वारस आहे वाण ४०१ १०१ यथाल मालमत्त्र कायदेशार वास्स आहेत व सदर करार १. ने. श्रीपाल बिल्डसं की तो. नेनीचंद तिकमचंद पुनिया यांच्या दरमान करार दि. २४.१२.१५७९ रोजी अंगलात आणले होते व श्री. नेनीचंद तिकमचंद पुनिया यांना श्रीय. मंजुळा नेनीचंद पुनिया यांना येट करार दि. १०.११.१०२० अंतर्गत दस्तावेज तिरास्त टीपनएन-४-७२८८-२०२० १०.११.२०२० रोजी भेट दिला, मंजुळा नेनीचंद पुनिवा

मुत्यू दि. ०८.०६.२०२४ रोजी झाला, त्यांच्या मार्ग त्यांचे कायदेशीर ज्ञान्य त्रुत्यू (द. ०८.०६.२०२४ राजी झाला, त्याच्या मान त्यांचे कायदेशीर वास्स १. श्री. नेमीचंद तिक्यचंद पुजनिया (पती) २. श्रीय. तेयल पिचूण येहता (विवाहित युलगी) व ३. श्री. गतिय नेमीचंद पुननिया (युलगा) हे आहेत. सिरीयल क्र. १ व २ चे कायदेशीर वारस हे त्यांचे बरील सदर फ्लॅटचे अर्जदार कायदेशीर वास्स, सिरीयल क्र. ३ संबंधातील त्यांचे शेअर, इक रिलीज करार मार्फत

इस्तांतरण करण्यास इन्छुक आहेत. कोणाही व्यक्तीस, बँक्स, वित्तीय संस्था, वैयक्तिक, कंपनी संस्था आदी यांना दस्तावेज पुरावे यांच्यासह लेखी स्वरूपात जेणतेही दावे वा आक्षेप असल्यास कोणतेही दावे असल्यास त्यांनी सदर सुचनेच्या तारखेपासून १४ दिवसांच्या आत दस्तावेज पुरावे यांच्यासह लेखी स्वरूपात सूचित करावे अन्यथा कोणाही व्यक्तीचे कोणतेही दावे सदर फ्लॅटकरिता

पृहित धरले जाणार नाहीत याची कृपया नोद घ्याबी. दि. १७.०७.२०२४ (बकील उच्च न्यायालय बी/१०९, भाईदया नगर, बी बिल्डीग, नवघर रोड, भाईंदर (पू), जिल्हा ठाणे ४०१ १०५.

मार्गदर्शनाखाली सदर उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाची संपूर्ण तयारी कला शिक्षिका सुप्रिया पवार यांनी केली होती.

जाहीर सूचना सूचना याद्वारे माझे अशील यांच्या वतीने देण्यात

श्रीम, विमला की, सोनी (विक्रेता) यांच्य मालमत्ता धारक फ्लॅट क्र. १७, १ ला मजला को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड म्हणून सोसायटी महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसायटीज ॲक्ट, १९६१ अंतर्गत नोंदणीकृत आहे नोंदणीकरण **奶**. एचएसजी/८९६/१९६५ दि. ३ मार्च, १९६५ रोड क्र. ३, टीपीएस ६, सांताक्रुझ (पश्चिम) मुंबई ४०० ०५४ येथील मालमत्ता व ५ संपूर्ण पटानित शेअर्स असलेल्या सोसायटीद्वारे जारी रु. ६० प्रत्येकी जारी धारक विभिन्न क्र. २४१ ते ३०० (दोन्ही समाविष्ट) धारक शेअर प्रमाणपत्र क्र. ४० अंतर्गत फ्लॅट संबंधात (सदर मालमत्ता) व खालील लिखीत अनुसूचीमध्ये अधिक विवरणीत मालमत्तेच्या हक्क, अधिकार व हितसंबंधांर्च पडताळणी करण्यात येत आहे.

विक्रेत्यांद्वारे मला सूचित करण्यात येत आहे की सदर मालमत्तेच्या मूळ मालक यांचे दस्तावेजांचे मुख्य मूळ करार श्रीम. सुमनगाला कृष्णा कामर यांचे करार गहाळ व हरवले आहेत.

गहाळ दस्तावेज पोलीस तक्रार विक्रेत्यांद्वारे दाखल

सर्व व्यक्तींना सदर मालमत्तेच्या संबंधात कोणतेही दावे असल्यास तसेच विक्री, अदलाबदल, भेट. गहाण, प्रभार, धारणाधिकार, भाडेकरार, वहिवाट, न्यास, देखभाल, वारसा, ताबा, परवाना वा अन्य काही असल्यास त्यांनी याद्वारे सदर लेखी स्वरूपा दस्तावेज पुरावे यांच्यासह अधोहस्ताक्षरित यांन त्यांचे कार्यालय पत्ता कार्यालय क्र. ९ रूद्र लॉ चेंबर, २ रा मजला, पुष्पम बिल्डींग, कावासजी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ येथे सदर प्रसिद्धी तारखेपासून १४ दिवसांच्या कालावधीच्या आत सूचित करावे अन्यथा सदर व्यक्तींचे दावे काही असल्यास ते अधित्यागीत व वा परित्यागीत मानले जातील व हक गृहित धरले जाणार नाहीत.

अनुसूची : (सदर मालमत्तेचे विवरण)

सर्व तो फ्लॅट क्र. १७, मोजमापित अंदाजे ५४० चौरस फूट बिल्ट अप क्षेत्रफळ, १ ला मजला, बिल्डींग क्र. २ म्हणून ज्ञात दि बागेश्री को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड म्हणून ज्ञात, बांधकामित वर्ष १९६५ मधील प्लॉट धारक जिमन प्लॉट क्र. ७६, रोड क्र. ३, टीपीएस ६ सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई ४०० ०५४ येथील मालमत्ता व ५ संपूर्ण प्रदानित शेअर्स असलेल्या ह. ६० प्रत्येकीच्या विभिन्न क्र. २४१ ते ३०० (दोन्ही समाविष्ट) धारक शेअर प्रमाणपत्र क्र. ४० अंतर्गत दि बागेश्री को-ऑपरेटिव्ह हाउर्सिंग सोसायटी लिमिटेड द्वारे जारी मालमत्ता. दि. १७ जुलै, २०२४

> सही/ वैभवी परचके वकील

केनरा बैंक Canara Bank

एआरएम शाखा - १ मुंबई ३७, खासामालाया, पाटकर हॉलसमोर, न्यु मरिन लाईन्स, ठाकरसी मार्ग, मुंबई ४०० ०२०. इमेल : cb2360@canarabank.com दूर, क्र. ०२२-२२०६५४२५/३० वेक्साइट : www.canarabank.com

सदर वृत्तपत्रामध्ये दि. १६.०७.२०२४ रोजी प्रसिद्ध आमची विक्री सूचना कृपया पाहाची त्यामध्ये सदर सूचना इरठे रुकम चुकीची छापली गेली आहे. कृपया **इरठे रु.** ६,३५,०००/- च्या ऐंवजी रु. ६३,५०,०००/- असे सर्व उर्वरित ई-लिलाव सूचना अटी व शर्तींसह अपरिवर्तीत राहील.

देनांक : ११.०७.२०२४ प्राधिकृत अधिकारी,

CAPFIN INDIA LIMITED ("TARGET COMPANY") Regd office: 1C/13, Basement, New Rohtak Road Delhi North West Delhi - 110005

Website: www.capfinindia.com Open offer for the acquisition of 15.75.585 (Fifteen Lakh Seventy-Five Thousand Five Hundred Eighty-Five Only) Fully Paid-Up Equity Shares of the face value of Rs. 10/- each, representing 55.00% of the total Equity and voting Share Capital of the Target Company by Mr. Abhishek Narbaria and Mr. Umesh Kumar Sahay (herein after collectively referred as "Acquirers") at a price of Rs. 14.22/- (Rupees Fourteen and Twenty Two Paisa Only) per fully paid-up Equity Share (the "Offer Price") payable in Cash pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 as amended rom time to time ("SEBI (SAST) Regulations").

This Corrigendum (the "Corrigendum") to the Letter of Offer ("LOF") dated July 11, 2024 sent to Securities and Exchange Board of India is being issued by Fast Track Finsed Private Limited ("Manager to the Offer"), for and on behalf of Acquirers. This Corrigendum is to be read in continuation of, and in conjunction with the LOF.

Capitalized terms used but not defined in this Corrigendum shall have the same meaning assigned to such terms in the LOF (as the case may be), unless otherwise specified. The shareholders of Capfin India Limited are requested to note the developments/ mendments with respect to and in connection with Open Offer are as under:

. As previously disclosed in the Letter of Offer, the commencement date for our tender offer was initially set for July 19, 2024, which is 11th working days from the date of receiving the RBI Observation Letter. However, due to unforeseen circumstances, the tendering period will now commence on July 22, 2024, which is 12th working days from the date of receiving the RBI Observation Letter Revised Schedule of Activities: -

Schedule of activity as per LOF has been amended and revised schedule of activities pertaining to the Offer is set out below.

Activity	Schedule	Revised Schedule	
	Day and Date	(Day & Date)	
Last date for Upward revision in Offer Price/	September 14,	July 19, 2024,	
Offer Size	2023 Thursday	Friday	
Date of Publication of Offer opening Public		July 19, 2024,	
Announcement in the newspaper in which DPS has been published	2023 Thursday	Friday	
Date of commencement of Tendering Period	September 15,	July 22, 2024,	
("Offer Opening Date")	2023, Friday	Monday	
Date of closure of Tendering Period ("Offer	October 03,	August 02, 2024,	
Closing date")	2023 Tuesday	Friday	
Last date for post-offer advertisement	October 10,	August 09, 2024,	
	2023 Tuesday	Friday	
Last date of communicating the rejection/		August 19, 2024,	
acceptance and completion of payment of		Monday	
consideration or refund of Equity Shares to the Public Shareholders of the Target Company	Tuesday		
As par I attar of offer in page no. 18 and point	no 618 the unc	lated calculation of	

period of delay and interest is provided below:

December 16, 2023
August 19, 2024
246 Days
Rs. 13.32/-
Rs.0.9/-
Rs. 14.22/-

the case may be) remain unchanged. The Acquirers accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum

to LOF (as the case may be) also for the fulfillment of the obligations of the Acquirers laid down in the Regulations, as amended from to time to time. A copy of this Corrigendum to LOF will be available on SEBI's website- www.sebi.gov.in

BSE's website www.bseindia.com; and on Lead Manager website - www.ftfinsec.com; SUED BY MANAGER TO THE OFFER FOR AND ON BEHALF OF THE ACQUIRER



Email: mb@ftfinsec.com Website: www.ftfinsec.com Contact Person: Mr. Vikas Kumar Verma SEBI Reg. No: INM000012500 CIN: U65191DL2010PTC200381

Telephone: +91-11-43029809

Date: 16.07.2024 Place: New Delhi

दि. १९.०७.२०२४ पासून भुसावळ पर्यंत दादर - नंदुरबार विशेषचा विस्तार

द्रेन क्र.	मूळ स्टेशन व आगमन	सेवांची तारीख	सुटणार	पोहोचणार
०९०४९	दादर - भुसावळ	१९.०७.२०२४	००.१५ वा.	१३.४० वा.
	(साप्ताहिक)	ते २७.०९.२०२४	(गुक्रवार)	(त्याच दिवशी)
०९०५०	भुसावळ - दादर	१९.०७.२०२४	१७.४० वा.	०५.१५ वा.
	(साप्ताहिक)	ते २७.०९.२०२४	(शुक्रवार)	(पुढील दिवशी)
थांबा : नं दिशांमध्ये.	दुरबार, दोंडाईचा, सिंदखेडा, नरट	राना, अमळनेर, धरण	गाव व जळगाव	स्टेशन दोन्ही

थांचे व रचना यांच्या संबंधित वेळेच्या संबंधात विस्तृत माहितीकरिता कृपया <www.enquiry. indianrail.gov.in> ला प्रवाक्यांनी भेट चावी.

वरील ट्रेन विशेष ट्रेन म्हणून विशेष प्रभारावर चालविली जाईल.

उपवने व उद्याने



पश्चिम रेल्वे wr.indianrailways.gov.in

आम्हाला साइक कराः 🚰 facebook.com/WesternRly ● आम्हाला फॉलो कराः 🔀 x.com/WesternRly

सर्व आरक्षित तिकीटांकरिता मूळ ओळख पत्र सोवत वाळगावे.

CAPFIN INDIA LIMITED CIN: L74999DL1992PLC048032

Registered Office: 1C/13, Basement, New Rohtak Road, Delhi North West Delhi - 110005 Telephone.: - 011-22055161 | E-mail: capfinindialtd@yahoo.co.in | Website: www.capfinindia.com

endations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Capfin India Limited ("Target Company" or "TC") on the Open Offer ("Offer") made by Mr. Abhishek Narbaria (PAN No. AFXPN5866M) and Mr. Umesh Kumar Sahay (PAN No. BOIPS8195D) (hereinafter collectively referred to as "Acquirers") to the Public Shareholders of Target Company ("Shareholders") under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations"). July 16, 2024

 Name of the Target Company (TC)
 Details of the Offer pertaining to Offer is being made by the Acquirers pursuant to Regulation 3(1) and Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations for the acquisition of upto 15,75,585 (Fifteen Lakh Seventy-Five Thousand Five Hundred Eighty-Five) fully paid-up equity shares of face value Rs. 10/- each, representing 55.00% of the total equity and voting share capital of the Target Company at a price of 14.22/- (Rupees Fourteen and Twenty-Two Paise Only) per Equity Share ("Offer Price"), payable in cash.

4. Name of the Acquirer(s) and the Mr. Abhishek Narbaria Person Acting in Concert (PAC) Mr. Umesh Kumar Sahay

with the Acquirers Name of the Manager to the Offer

Fast Track Finsec Private Limited

SEBI Registration No.: INM000012500 Office No. V-116, First Floor, New Delhi House, 27, Barakhamba Road, New Delhi-110001; Tel+91-011-4302980; Website: www.ftfinsec.com; Email: mb@ftfinsec.com Contact person: Mr. Vikas Kumar Verma

6. Members of the Committee of Independent Directors (IDC)

1. Mr. Sanjay Kukreja, Chairman 2. Mr. Mangina Srinivas Rao, Member

Ms. Gayathri Lyer, Member IDC Member's relationship with the IDC members are Independent Directors on the Board of the TC. None of the IDC members TC (Director, Equity Shares owned, hold any equity shares or has entered into any other contract/relationship with the TC except any other contact/ relationship), if any as directors on the board of the TC and as chairperson/member of the Board Committees. Trading in the Equity Shares/ None of the IDC members has traded in Equity Shares/ other securities of the TC during the other Securities of the TC by IDC period of 12 months prior to the date of Public Announcement dated July 25, 2023 or the period from Public Announcement till the date of this recommendation.

IDC Member's relationship with None of the IDC Members has any contract/relationship with the Acquirers. the Acquirer (Director, Equity Shares owned, any other contact relationship), if any

10. Trading in the Equity shares/other Not applicable securities of the acquirer by IDC

None

11. Recommendation on the Open The IDC is of the view that the Offer is fair and reasonable. However, the shareholders Offer, as to whether the offer is fair should independently evaluate the Offer and take informed decision. IDC members have reviewed the Public Announcement("PA"), Detailed Public Statement

12. Summary of reasons for recommendation

and reasonable

13. Details of Independent

Any other matter to be highlighted

Advisors, if any

Date: July 16, 2024

("DPS"), Draft Letter of Offer ("DLOF") and the Letter of Offer ("LOF"), issued by Manager to the Open Offer on behalf of the Acquirer. Based on review of PA, DPS, DLOF and LOF, IDC is of the view that the Offer Price of Rs. 14.22/- (Rupees Fourteen and Twenty-Two Paise Only) per Equity Share offered by the acquirer is in line with SEBI (SAST) Regulations and appears to be fair and reasonable.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the nformation required to be disclosed by the TC under the SEBI (SAST) Regulations. For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

Mr. Sanjay Kukreja

Chairman of IDC

बालक मंदिर संस्थेच्या प्राथमिक शाळेतील चिमुकल्यांनी साजरी केली वारकरी दिंडी

कल्याण, दि. १६ (वार्ताहर) : कल्याण मधील बालक मंदिर संस्थेर्च प्राथमिक शाळेच्या इयत्ता पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांनी आपला सांस्कृतिक वारर जपत "देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त" मंगळवारी बालक मंदिर संस्था शाळा ते विठ्ठल मंदिर शिवाजी चौक येथे वारकरी दिंडी काढण्यात आली. दिंडीत जवळपास ४०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनी विठ्ठल रुक्मिणी, संत नामदेव, संत तुकाराम यांसारख्या विविध संतांची वेशभूषा केर्ल

केनरा बैंक Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate फोर्ट शारवा, ई सिंडिकेट बँक बिल्डींग, २६ए, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१.

त्याअर्थी, अधोहस्ताक्षारेत कॅनरा बँक यांच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी सीक्युरिटायझेशन ॲन्ड रिकन्स्ट्रक्शन कायनान्शिअल ॲसेट्स ॲन्ड एन्फोर्समेट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ (वापुढे कायदा म्हणून उल्लेखीत) अंतर्गत व सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेट) रूल्स, २००२ च्या नियम सहवाचिता कलम १३ (१२) अंतर्गत प्राप्त प्रधिकारान्वये कर्जदार/हमीदार/ मालक मालमत्ता <mark>श्री. लीओन जोसेफ डेनिश, श्रीम. सेल्वाराणी जोसेफ ॲन्टर्न</mark> नीओन **व श्री. लीओन अनिव फर्नांडो** यांना सूचनेमध्ये निर्देशित सूचना अनुसार रक्कम **रु. १८,०८,८३७.९६**/-(क. अठरा लाख आठ डजार आठशे सदतीस व शहारणव पैसे मात्र) अधिक अलाग व्याज व प्रभार सदर सचने ग्राप्तीच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत करण्याचे निर्देश देणारी मागणी सूचना दि. २०.०४.२०२१ जारी केर्ल


कलम १३ (४) अंतर्गत सहवाचन सदर नियम ८ व ९ अंतर्गत त्यांना प्राप्त अधिकारान्वये खालील निर्देशिर गालमत्तेचा दि. १० जुलै, २०२४ रोजी ताबा घेतला आहे. विशेषतः कर्जदार/ हमीदार/ मालक यांना व आम जनतेस इशारा देण्यात येत आहे की, त्यांनी सदर मालमत्तेसंदर्भा व्यवहार करू नये व असे कोणतेही व्यवहार हे कॅनरा बँक, फोर्ट शाखा यांच्या प्रभारांतर्गत रक्कम रु. १८.०८.८३७.९६/- (रु. अठरा लाख आठ हजार आठशे सदतीस व शहाण्णव पैसे मात्र) व त्यावरील व्याज

हमीदार/ मालक मालमत्तेचे व आम जनतेस देण्यात येत आहे की, अघोहस्ताक्षरितांनी सदर कायद्याच्य

हायद्याच्या अनुच्छेद १३ च्या उप-अनुच्छेद (८) अंतर्गत कर्जदार यांचे याद्वारे लक्ष वेधून घेण्यात येत आहे की त्यां उपलब्ध वेळेत प्रतिभूत मालमत्ता सोडवून घ्यावी. स्थावर मालमत्तेचे विवरण सर्व तो भाग व भूखांड असलेला फ्लॅट क्र. ४०३, ४ था मजला, शिवतेज प्लाझा म्हणून

सेक्टर क्र. ५०, साई मंदिरजवळ व नवी मुंबई स्टडी सेंटर, नेरूळ ४०० ७०६, नवी मुंबई. सीमा : साईट/ अपार्टमेंट सीमा : उत्तरेस : एनएमएमसी स्टडी सेंटर, पूर्वेस : शिव साई प्लाझा, शेल्टर प्लाझा, पश्चिमेस : रोड

ठिकाण : नवी मुंबई



मुख्य कार्यालय: लोकमंगल, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे प

ज्याअर्थी, अधोहस्ताक्षरीत बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी सीक्युरिटायझेशन ॲन्ड रेकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शिअल असेट्स ॲन्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सीक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्ट, २००२ अनुसार व सीक्युरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेट) रूल्स, २००२ च्या नियम ३ सहवाचिता कलम १३ च उप-अनुच्छेद (१२) अंतर्गत प्राप्त अधिकारान्वये कर्जदार **श्रीम. गौरी गणेश पास्ते** व हमीदा **श्री. महादेव तुकाराम उतेकर** यांना स्पीड पोस्ट/ नोंदणीकृत एडी/ डायरेक्ट डिलीव्हरी बाय हॅंड मार्फ यांना सूचनेत निर्देशित संपूर्ण रक्कम **रू. २५२६६७४.००/- (पंचवीस लाख सञ्वीस इजार सहा**शे चौँऱ्याइत्तर मात्र) अधिक अलागू व्याज ०९.०३.२०२४ पासून १०.६५% द.सा. दराने अधिक प्रभार, मूल्य व खर्च यांच्यासह रकमेचे प्रदान सदर सूचनेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत भरण करण्याकरिता मागणी सूचना दि. १८.०३.२०२४ जारी केली होती.

कर्जदार यांनी सदर रकमेचा भरणा करण्यास कसूर केली असल्याने, सदर सूचना वरील निर्देशित कर्जदार व आम जनतेस देण्यात येत आहे की, अधोहस्ताक्षरितांनी सदर नियमांच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्राधिकृत अधिकारी यांना ॲक्टच्या सदर नियमांच्या नियम ८ सहवाचन अनुच्छेद १३ (४) अंतर्गत त्यांना प्राप्त अधिकारान्वये खालील निर्देशित मालमत्तेचा दि. १२ जुलै, २०२४ रोजी प्रतिकात्मक ताबा घेतल विशेषतः कर्जदार व आम जनतेस इशारा देण्यात येत आहे की, त्यांनी सदर मालमत्तेसंदर्भात व्यवहा

करू नये व असे कोणतेही व्यवहार हे बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या प्रभारांतर्गत वरील निर्देशित रक्कमेच्य कायद्याचे अनुच्छेद १३ च्या उपअनुच्छेद (८) च्या तरतुदीअंतर्गत उपलब्ध कालावधीमध्ये प्रतिभूत मालमत्ता सोडवून घेण्यासाठी कर्जदारांचे लक्ष वेधून घेण्यात येत आहे.

फ्लॅट क्र. ७०१, डी विंग, मंजीरी हाईट्स चिंतामणी चौंक, बदलापूर गाव बदलापूर पश्चिम ४२१ ५० मिळकत क्र. १८५, एकूण क्षेत्रफळ ५९२.०० चौ. फूट

सही/ दिनांक : १२.०७.२०२४ महाब्यबस्थापक व प्राधिकृत अधिकारी

केम्प अँड कंपनी लिमिटेड **नोंदणीकृत कार्यालय**: पाचवा माळा, डिजीपी हाऊस, ८८-सी, ओल्ड प्रभादेवी रोड, मुंबई - ४०० ०२५ सीआयएन: एल२४२३९एमएच१९८२पीएलसी००००४७ टेलि:०२२-६६५३९०५० फॅक्स: ०२२-६६५३९०८९ ई-मेल kemp-investor@kempnco.com

वेबसाइट:<u>www.kempnco.com</u> १४३ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेची सूचना, रिमोट ई व्होटिंगची माहिती आणि बुक क्लोजर सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की, एजीएम सूचनेत नमूद साधारण व विशेष विषयांवरकोपोरेट व्यवह मंत्रालय (एमसीए) यांच्याद्वारे सामान्य परिपत्रक क्रमांक १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२० , ०२/२०२१ २१/२०२१, ०२/२०२२, १०/२०२२ आणि ०९/२०२३ दिनांक एप्रिल ८, २०२०, एप्रिल १३, २०२० मे ०५ , २०२०, जानेवारी १३, २०२१, डिसेंबर १४, २०२१, मे ५ २०२२ ,डिसेंबर २८ २०२२, आणि सप्टेंबर २५, २०२३ (या पुढे संयुक्तपणे एमसीए परिपत्रके म्हणून संदर्भ) रोजीच्या परपत्रिकापूर्ततेनुसार व्हिडीओ कॉन्फरेन्स (व्हीसी) / अदर ऑडिओ व्हिज्यूअल म्हणजे (ओएव्हीएम) मार्फत विचारविनिमय करण्यासाठी केम्प अँड कंपनी लिमिटेड (कंपनी) च्या सभासदांची १४३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवार ७ ऑगस्ट

२०२४ रोजी संध्याकाळी ३.०० वा (भा प्रवे) आयोजित करण्यात येत आहे. तद्रुसार उपोरक्त परपत्रिकापूर्तर

प्रमाणे कंपनीने सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या वास्तविक उपस्थिती शिवाय वहीसी / ओएव्हीएम मार्फत १४३ वी एजीएम घेण्याची निश्चित केली आहे. वर नमुद एमसीए परपत्रिकाद्वारे भागधारकांना वार्षिक अहवालाच्या वास्तविक प्रतींचे मुद्रण व वितरणबाबत कंपनीला शिथिलता दिलेली आहे. नोंद दिनांक शुक्रवार १२ जुलै २०२४ रोजी डिपॉझिटरी सहभागीदार किंवा कंपनी / निबंधक व हस्तांतरण प्रतिनिधी यांच्याकडे ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद आहेत त्यांना एजीएम सूचना तसेच आर्थिक वर्ष २०२३-२४ करिता वार्षिक अहवाल ई-मेल पाठविले आहे. उपोरक्त वितरण प्रक्रिया सोमवार १५ जुलै, २०२४ रोजी पूर्ण करण्यात आली आहे. ज्या सदस्यांचे ई-मेल नोंद नाहीत त्यांनी रिमोट ई- वोटिंग प्रणाली त्यांचे मत द्यावे, याकरिता एजीएम घेण्याच्या सूचनेचे टीमध्ये पहावे किंवा दिनांक १३ जुलै, २०२४ रोजी प्रातकाल (मराठी) आणि बिझनेस स्टेंडर्ड (इंग्रेजी) मध्ये कंपनीद्वारे प्रकाशित वृत्तपः

पुढे , कंपनी अधिनियम २०१३ (अधिनियम) चे कलम ९१ आणि सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स अँड डिस्क्लोजर रिक्व्यारमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ (लिस्टिंग रेगुलेशन्स) च्या कलम ४२ ला अनुसरुन केम्प अँड कंपनी लिमिटेड एजीएम च्या उँदेशाने कंपनीच्या सदस्यांची नोंद घेण्यासाठी सभासदांची नोंदवही आणि भाग हस्तांतरण पुस्तके गुरुवार, १ ऑगस्ट, २०२४) ते बुधवार ७ ऑगस्ट २०२४ (दोन्ही दिवस धरून) बंद

कायदाचे कलम १०८ सहवाचिता कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) अधिनियम, २०१४ चे नियम २० सुधारित प्रमाणे आणि लिस्टिंग रेग्युलेशन्स नियम ४४ आणि भारतीय कंपनी सचिव संस्थेद्वारा वितरित . तर्वसाधारण सभेवरील सचिव प्रमाण (एसएस २) नुसार कंपनीने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) च्या सहाय्याने एजीएम सूचनेत नमूद विषयाकरिता विद्युत स्वरूपाने त्यांचे मत देण्यासाठी नदस्यांनी ई - वोटिंग सुविधा प्रस्थावित केली आहे. तसेच कंपनीने एजीएम दरम्यान ई- वोटिंग प्रणालीने मतदानाची (ई-वोटिंग) सुविधा तरतूद केली आहे.

अधिनियमाच्या तरतुदी सहवाच्यात संबंधित नियम यानुसारच तपशील खालीलप्रमाणे. ए) एजीएमच्या सूचनेत नम्द केल्याप्रमाणे कामकाज (सामान्य आणि विशेष) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून

- रिमोटई-वोटिंग सुविधेची सुरुवात रविवार ४ ऑगस्ट, २०२४ रोजी सकाळी ९.०० वाजता होईल.
- रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगळवार ६ ऑगस्ट, २०२४ रोजी संध्या ५.०० वाजता संपेल. रिमोट ई- वोटिंग किंवा एजीएममध्ये संभासदाद्वारे मतदानासाठी निर्धारित पात्रतेकरिता कट - ऑफ डेट बुधवार ३१ जुलै, २०२४ .
- मंगळवार ६ ऑगस्ट,२०२४ रोजी सायं ५.०० वा (भाप्रवे) नंतर ई-वोटिंग देण्यास मान्यता असणार नाही आणि उपोरक्त तारीख व वेळेनंतर सुविधा बंद केली जाईल. सदस्यांद्वारे ठरावांवर दिलेली मत त्यास पढे कोणत्याही स्थितीत बदलता येणार नाही: जर कोणा व्यक्तीने सूचना पाठविल्यानंतर कंपनीचे शेअर्स घेऊन कंपनीचा सदस्य झाला असेल
- आणि नोंद तारेखला भागधारणा घेतली असेल त्यांनी evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवृन लॉगइन आयडी व पासवर्ड प्राप्त करावा. तथापि जर ई- वोटिंग करिता एनएसडीएल सह ते त्यापूर्वीच नोंद असल्यास त्यानीं त्यांचे मत देण्यासाठी त्यांचा विद्यमानयुजर आयडी व पासवर्ड वापरावा. रिमोट ई - व्होटिंग द्वारे त्याचा/ तिचा मताधिकार वापरल्यानंतरही एखादा सभासद एजीएममध्ये
- सहभागी होऊ शकतो परंतु त्यासएजीएमसमयीगुप्तमतदानानेपुन्हात्यांचे मतदेण्यातअनुमतीनसेल. केवळ कट ऑफ डेट रोजीस ज्या व्यक्तीचे नाव सभासदांच्या नोंदवहीत किंवा डिपॉझिटरीज ठेवत असलेल्या लाभार्थी मालकांच्या नोंदवहीत नोंदवले असेल तेच रिमोट ई वोटिंग सविधा वापरण्यास किंवा एजीएममध्ये मतदान करण्यास हक्कदार असतील.
- आय) रिमोट ई वोटिंग, व्ही सी /ओव्हीएम मार्फत एजीएम मध्ये उपस्थित आणि सर्व सदस्यांना ई वोटिंग करिता सविस्तर प्रक्रिया एजीएम च्या सूचनेत नमूद आहे, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठीच्या वार्षिक अहवालासह एजीएममध्ये नियंत्रणाची सूचना कंपनीचे संकेतस्थळ अर्थात www.kempnco.com वर तसेच स्टॉक एक्स्चेंज म्हणजे बीएसई लिमिटेड

आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडचे संकेतस्थळ www.bseindia.com

अनुक्रमे, आणिएनएसडीएलच्या संकेतस्थळ <u>Intips://www.evoting.nsdl.com</u>प्रदर्शित केली आहे. के) ई-व्होटिंग बाबत काही तक्रारी असल्यास, सदस्य शेअरधारकांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न आणि <u>https://www.evoting.nsdl.com</u> च्या डाउनलोड विभागात उपलब्ध शेअरधारकांसाठी ई-व्होटिंग यूजर मॅन्युअल पाह् शकतात किंवा टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करू शकतात. .: 1800-222-990 किंवा evoting@nsdl.co.in वर विनंती पाठवा सभासद श्री करण गुढका, कंपनी सचिव अँड हेड - लिगल यांच्याशी ५ वा माळ, डीजीपी हाऊस, ८८ सी, जुना प्रभादेवी रोड, मुंबई -४०० ०२५ येथे किंवा दूरध्वनी क्र. + ९१ ०२२ ६६५३९००० वर किंवा ई-मेल kemp

investor@kempnco.com येथे संपर्क साधावा. केम्प अँड कंपनी लिमिटेड करिता सही/-

ठिकाण : मंबर्ड करण गढका दिनांक: १७ जुलै २०२४ कंपनी सचिव